

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27—फरवरी 2, 2018 (माघ 7, 1939)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27—FEBRUARY 2, 2018 (MAGHA 7, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

(केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2018

सं. ओ दो-3588/2001-कार्मिक(डीए-6)—37 बटालियन के.रि.पु.बल के डॉ. सी.एम. नगुलई, सी.एम.ओ. (एस.जी.) कमाण्डेंट, ईरला सं.-5315 की कोरोनरी आर्टरी रोग से दिनांक 17.10.2017 को मृत्यु होने के कारण इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 17.10.2017 (अपराहन) से हटाया गया है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 22 जनवरी 2018

सं. ओ दो-3709/2018-कार्मिक(डीए-1)—भारत सरकार ने श्री अजय कुमार यादव, भा.पु.से. (एच.पी.-96) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति आधार पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 14 में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक, के.रि.पु.बल का कार्यभार दिनांक 19.01.2018 (पूर्वाहन) को ग्रहण कर लिया है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 23 जनवरी 2018

सं. ओ दो-7754/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 15.03.2017 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट (ईरला-7754), 35 बटालियन, केरिपुबल ने दिनांक 30.04.2017 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 30.04.2017 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-7784/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 30.05.2017 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री राजेश बी, सहायक कमाण्डेन्ट (ईरला-7784), 42 बटालियन केरिपुबल ने दिनांक 21.08.2017 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 21.08.2017 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-7994/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 19.11.2016 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री सोमदत्त यादव, सहायक कमाण्डेन्ट (ईरला-7994), 181 बटालियन, केरिपुबल ने दिनांक 28.02.2017 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 28.02.2017 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-8188/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 24.07.2017 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री कुलदीप सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट (ईरला-8188), 150 बटालियन, केरिपुबल ने दिनांक 31.10.2017 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31.10.2017 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-8352/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस दिनांक 16.06.2017 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री ओमप्रकाश गोदारा, सहायक कमाण्डेन्ट (ईरला-8352), 121 बटालियन, केरिपुबल ने दिनांक 31.08.2017 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31.08.2017 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-8451/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस दिनांक 15.03.2017 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री दीपक कुमार, सहायक कमाण्डेन्ट (ईरला-8451), 108 बटालियन आर.ए.एफ. ने दिनांक 25.07.2017 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 25.07.2017 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-9512/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस दिनांक 21.04.2017 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री राहुल यादव, सहायक कमाण्डेन्ट (ईरला-9512), 142 बटालियन, केरिपुबल ने दिनांक 17.05.2017 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 17.05.2017 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-10090/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस दिनांक 15.12.2016 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री यादव शैलेश कुमार, सहायक कमाण्डेन्ट (ईरला-10090), 90 बटालियन, केरिपुबल ने दिनांक 11.03.2017 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 11.03.2017 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-10213/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस दिनांक 10.02.2017 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री एम. साकरी, सहायक कमाण्डेन्ट (ईरला-10213), 44 बटालियन, केरिपुबल ने दिनांक 31.05.2017 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31.05.2017 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-10914/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस दिनांक 27.12.2016 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री हर्शल मनोहर देसाई, सहायक कमाण्डेन्ट(प्रशिक्षु) (ईरला-10914), 48 बैच डी.ए.जी.ओ. मूल प्रशिक्षणरत्न, केरिपुबल अकादमी, गुरुग्राम (हरियाणा) ने दिनांक 17.03.2017 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 17.03.2017 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-10935/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस दिनांक 17.01.2017 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री नीरज वढेरा, सहायक कमाण्डेन्ट(प्रशिक्षु) (ईरला-10935), 48 बैच डी.ए.जी.ओ. मूल प्रशिक्षणरत्न, केरिपुबल अकादमी, गुरुग्राम (हरियाणा) ने दिनांक 22.03.2017 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 22.03.2017 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-11239/2018-कार्मिक(स.क.)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस दिनांक 04.09.2017 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री अभिषेक शर्मा, सहायक कमाण्डेन्ट(प्रशिक्षु) (ईरला-11239), 49 बैच डी.ए.जी.ओ. मूल प्रशिक्षणरत्न, केरिपुबल अकादमी, गुरुग्राम (हरियाणा) ने दिनांक 16.11.2017 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 16.11.2017 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
नई दिल्ली-110002, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-320—इस कार्यालय के श्री तीरथ राम मल्होत्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (पे मैट्रिक्स के 10वें स्तर में) वार्णक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.2017 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

उनकी जन्म तिथि 20.12.1957 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 23.04.1982 है।

ह./— अपठनीय
उप निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 4 जनवरी 2018

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-352—महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली, इस कार्यालय के श्री ललित कुमार बंसीवाल, लेखापरीक्षा अधिकारी को वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर पे-मैट्रिक्स के 10वें स्तर में (₹ 56,100—1,77,500/—), दिनांक 01.01.2018 से आगामी आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

ह./— अपठनीय
उप निदेशक (प्रशासन)

नागर विमानन मंत्रालय
(महानिदेशालय नागर विमानन)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 जनवरी 2018

सं. ए-32013/03/2016-स्था.11—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर और निदेशक, उड़नयोग्यता के पद पर उनकी प्रोन्नति होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति निम्नलिखित उप निदेशक, उड़नयोग्यता की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से और अगले आदेशों के होने तक वेतन बैंड-4, रुपये 37,400—67,000/- रुपये तथा ग्रेड वेतन 7600/- (पूर्व-संशोधित) (लेवल-13, पे मैट्रिक्स) के वेतनमान में नागर विमानन महानिदेशालय में नियमित आधार पर निदेशक, उड़नयोग्यता के पद पर करते हैं :—

क्रम सं	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री)	प्रोन्नति की तारीख
1.	डी. के. दास	29.12.2017 (पूर्वाह्न)
2.	सुरेंदेर टोप्पो	29.12.2017 (पूर्वाह्न)

पवन मालवीय
उपनिदेशक प्रशासन

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 23rd December 2017

No. 44/V. Judges/2017/SCA(Genl.)—In continuation of earlier Notification of even number dated 15.12.2017, it is hereby further notified that under Rule 6 of Order II of the Supreme Court Rules, 2013, Hon'ble the Chief Justice of India has been please to constitute a Special Bench for hearing of cases pertaining to the Motor Accident Claims (Subject Category 1201–1207 Compensation matters) during ensuing Winter/Christmas and New Year holidays on 26.12.2017 as under :—

Bench	Period	Name of the Hon'ble Judges Constituting Special Bench	
1.	26.12.2017	Hon'ble the Chief Justice of India And Hon'ble Mr. Justice Navin Sinha	For hearing of cases pertaining to the Motor Accident Claims (Subject Category 1201-1207 Compensation matters)

RAJESH KUMAR GOEL
Registrar (J-III & A.J.)

New Delhi, the 18th January 2018

No. 20/2018/SCA(1)—Shri Iqbal Ahmed, Branch Officer has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of December 31, 2017 on his attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Additional Registrar (Admn.I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CENTRAL RESERVE POLICE FORCE DIRECTORATE GENERAL)

New Delhi, the 18th January 2018

No. O.II-3588/2001-Pers-DA-6—Dr. C.M. Ngullie, CMO (SG)/Commandant, IRLA-5315 of 37 Bn, CRPF expired on 17.10.2017 due to coronary artery disease at Civil Hospital, Aheri, Gadchiroli. Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force from 17.10.2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

The 22nd January 2018

No. O.II-3709/2018-Pers-DA-1—The Govt. of India have appointed Shri Ajay Kumar Yadav, IPS (HP : 96), as Inspector General (IG) in CRPF on deputation basis in Level 14 in the Pay Matrix for a period of 05 years from the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Inspector General, CRPF on the Forenoon of 19/01/2018.

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

The 23rd January 2018

No. O.II-7754/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 15/03/2017 for voluntary retirement from Government service, Shri Rajesh Kumar Singh, Assistant Commandant (IRLA No. 7754) of 35 Bn, CRPF relinquished the charge of his post in the afternoon of 30/04/2017. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 30/04/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

No. O.II-7784/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 30/05/2017 for voluntary retirement from Government service, Shri Rajesh B, Assistant Commandant (IRLA No. 7784) of 42 Bn, CRPF relinquished the charge of his post in the afternoon of 21/08/2017. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 21/08/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

No. O.II-7994/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 19/11/2016 for voluntary retirement from Government service, Shri Somdutt Yadav, Assistant Commandant (IRLA No. 7994) of 181 Bn, CRPF relinquished the charge of his post in the afternoon of 28/02/2017. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 28/02/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

No. O.II-8188/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 24/07/2017 for voluntary retirement from Government service, Shri Kuldeep Singh, Assistant Commandant (IRLA No. 8188) of 150 Bn, CRPF relinquished the charge of his post in the afternoon of 31/10/2017. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 31/10/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

No. O.II-8352/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 16/06/2017 for resignation from Government service, Shri Omprakash Godara, Assistant Commandant (IRLA No. 8352) of 121 Bn CRPF relinquished the charge of his post in the afternoon of 31/08/2017. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 31/08/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

No. O.II-8451/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 15/03/2017 for resignation from Government service, Shri Deepak Kumar, Assistant Commandant (IRLA No. 8451) of 108 Bn RAF relinquished the charge of his post in the afternoon of 25/07/2017. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 25/07/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

No. O.II-9512/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 21/04/2017 for resignation from Government service, Shri Rahul Yadav, Assistant Commandant (IRLA No. 9512) of 142 Bn, CRPF relinquished the charge of his post in the afternoon of 17/05/2017. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 17/05/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

No. O.II-10090/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 15/12/2016 for resignation from Government service, Shri Yadav Shailesh Kumar, Assistant Commandant (IRLA No. 10090) of 90 Bn, CRPF relinquished the charge of his post in the afternoon of 11/03/2017. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 11/03/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

No. O.II-10213/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 10/02/2017 for resignation from Government service, Shri M. Sakhrie, Assistant Commandant (IRLA No. 10213) of 44 Bn, CRPF relinquished the charge of his post in the afternoon of 31/05/2017. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 31/05/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

No. O.II-10914/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 27/12/2016 for resignation from Government service, Shri Harshal Manohar Desai, Assistant Commandant (Trainee) (IRLA No. 10914) of DAGOs 48th Batch, undergoing Basic Training at CRPF Academy, Gurugram (Haryana) relinquished the charge of his post in the afternoon of 17/03/2017. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 17/03/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

No. O.II-10935/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 17/01/2017 for resignation from Government service, Shri Neeraj Wadhera, Assistant Commandant (Trainee) (IRLA No. 10935) of DAGOs 48th Batch, undergoing Basic Training at CRPF Academy, Gurugram (Haryana) relinquished the charge of his post in the afternoon of 22/03/2017. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 22/03/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

No. O.II-11239/2018-Pers-DA(A/C)—Consequent on acceptance of his notice dated 04/09/2017 for resignation from Government service, Shri Abhishek Sharma, Assistant Commandant (Trainee) (IRLA No. 11239) of DAGOs 49th Batch, undergoing Basic Training at CRPF Academy, Gurugram (Haryana) relinquished the charge of his post in the afternoon of 16/11/2017. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 16/11/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT)
CENTRAL EXPENDITURE

New Delhi-110002, the 11th December 2017

No. Admn./O.O. No.-320—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Tirath Ram Malhotra, Senior Audit Officer (Level 10 in pay matrix) of this office is retiring from Government Service on 31.12.2017 (A/N).

His date of birth is 20.12.1957 and he joined Government service on 23.04.1982.

Sd/ ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)

The 4th January 2018

No. Admn./O.O. No.-352—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi hereby appoints Shri Lalit Kumar Bansiwal, Audit Officer of this office to officiate as Senior Audit Officer in the Pay Level-10 (₹ 56,100—1,77,500/-) with effect from 01.01.2018 until further orders.

Sd/ ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION)

New Delhi-110003, the 8th January 2018

No. A-32013/03/2016-E.II—On the basis of recommendations of Union Public Service Commission and consequent upon their promotion to the post of Director of Airworthiness, the President is pleased to appoint the following Deputy Director of Airworthiness to the post of Director of Airworthiness in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs.8700/- (pre-revised) (Level-13 of Pay Matrix) on regular basis in Directorate General of Civil Aviation with effect from the date mentioned against their names and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officers (S/Sh.)	Date of Promotion
1	D.K. Das	29.12.2017 (FN)
2	Surinder Toppo	29.12.2017 (FN)

PAVAN MALVIYA
Deputy Director of Administration